

यह 21 जन्म का वर्सा है बाप द्वारा। उनको कोई ऐसा वर्सा तो नहीं मिल सकता है। धर्म है वो। ..सन्यासियों का धर्म है। भले ये देवी—देवताओं का धर्म है; परन्तु इन देवी—देवताओं को वर्सा मिलता है बाप से। ये तो समझ सकते हैं ना कि सतयुग में सतयुग स्थापन करने वाला बाप ; तो जरूर जो सतयुग में देवी—देवताएँ राज्य करते हैं, ज़रूर कोई बेहद के बाप से वर्सा मिलता होगा। ये तुम जानते हो। दुनिया में इन बातों का कोई प्रचार नहीं, कोई बात नहीं...। नहीं तो इसके पहले, आगे, लक्ष्मी—नारायण के मंदिर में जाने से ये थोड़े ही समझते थे कि इनको भगवान ने राज्य दिया। अगर ये समझ में आए कि उनको भगवान ने राज्य दिया, भला दिया कब? यह भी कोई नहीं समझे; क्योंकि सतयुग को लाखों वर्ष आगे लगा दिया है। इसलिए ये भी कुछ समझ में नहीं आए। तो सतयुग को लाखों वर्ष ; कोई लाखों पुराने का तो ये हो नहीं सकता है। अगर ये सतयुगी वाले लाखों वर्ष पुराने हों तो यहाँ तो करोड़ों की करोड़ों, अरबों की अरबों मनुष्य हो जावे, अनगिनत मनुष्य हो जाएँ। बुद्धि ऐसी कोई चट खाते में हो जाती है, कोई विचार नहीं चलता है कि जबकि ये देवी—देवताएँ भारत में राज्य करते थे। अगर ये लाखों वर्ष के हुए....। इनको तो हुआ ही अद्वाई हज़ार और सवा दो, दो हज़ार। बाकी जो लाखों वर्ष में ये आदि सनातन देवी—देवता धर्म वाले, और तो कोई का चित्र है नहीं, तो ये तो बहुत ही हो जावे, अनगिनत हो जावे। यह भी कोई के बुद्धि में नहीं बैठता है। क्यों? कौन बिठावे? अभी तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा स्वदर्शन चक्र ही है गवर्मेन्ट का भी। यह है गवर्मेन्ट का चक्र। उन्होंने लिखाय दिया है.... चर्खा। चर्खा फिरता है ना, ये भी फिरता है। तो उन्होंने इस वर्ल्ड चक्र को न जानने कारण वो चर्खा दे दिया है। ...देखो, तुम बैठे रहते हो ना। अभी बाबा कहेंगे— बच्चे, तुम स्वदर्शनचक्रधारी हो ना, तो झट तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरेगा। वर्ण भी फिरेगा। सत, त्रेता, द्वापर, कलहयुग, फिर संगमयुग...। वर्ण भी तुम्हारी बुद्धि में आएँगे— देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। यह जो विराट स्वरूप दिखलाते हैं उनमें ब्राह्मणों का वर्ण नहीं दिखलाते हैं। तो ब्राह्मणों का वर्ण न होने के कारण शिवबाबा भी कहाँ आवे, ब्रह्मा कहाँ आवे? आज बाबा का ख्याल आया कि इनको वाणी नहीं खुलती है, हाथ उठावें। मैं अभी पूछता हूँ। जो कहती हैं ना कि हम समझा नहीं सकती हैं, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ उठाया है, इन बच्चों (को) आकर इसको ऊपर खड़ा करो, इनको टाइम दे करके बिठाओ। पहले—2 बुद्धि में बिठाओ। तो कहो कि ऊँचे ते ऊँचा भगवत, भगवान, बाबा; क्योंकि रचता है। फिर बोलो, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है— हाथी कहो, घोड़ा कहो, ये फलाना कहो। अच्छा, वो तो हुआ सबका बाबा। अभी वर्सा मिलना चाहिए। तो ज़रूर यहाँ वर्सा चाहिए। अभी आत्माओं को वर्सा चाहिए। आत्माओं को तो वर्सा वहाँ है; पर यहाँ वर्सा चाहिए मनुष्य को। मेल और फिमेल को बाबा का स्वर्ग का वर्सा चाहिए। वो कैसे देवे? बाबा को यहाँ आना पड़े। यहाँ बाबा को आना पड़ता ही है पतित दुनिया में; क्योंकि कलहयुग है। तो ज़रूर जब ये कलहयुग—सतयुग के बीच में आवे तभी आ करके फिर हमको पवित्र बनावे और स्वर्ग का वर्सा देवे। तो ये फिर उनको बताओ, फिर एक—2 को बोलो— ये कहो। लिखकर जाने तो बोलो लिखो। फिर थोड़ा ऊपर में समझा करके (कि) देखो ...यह मम्मा—बाबा वहाँ सतयुग के ऊपर में तपस्या में बैठे हैं। देखो, बाबा—मम्मा बैठकर तपस्या करते हैं। ऊपर में दोनों हैं ना। तो देखो, ये ब्रह्मा—सरस्वती तपस्या करते हैं तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना। तो देखो, ये सतयुग (की) स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। हम ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण हैं। सतयुग का वर्सा हमको मिलना है शिवबाबा से ब्रह्मा द्वारा। सतयुग का वर्सा मिलेगा तो कलहयुग का खलास होने का है। तो गोल चक्कर पर ले आना। देखो, ये सतयुग और त्रेता, यह द्वापर—कलहयुग, यह रावण राज्य...। 5,7,8,10 दफा उनको घड़ी—2 कहलाते रहें तो सिर्फ उनके बुद्धि में बैठे.. बरोबर आधाकल्प सतयुग—त्रेता, फिर आधाकल्प द्वापर—कलहयुग, फिर ये हो गया संगम। ये देखो स्वर्ग, ये देखो नर्क हो गया। सतयुग—त्रेता स्वर्ग, द्वापर—कलहयुग नर्क। नर्क कौन स्थापन करते हैं? रावण। रावण को तो जानती हो, जिसने हाथ उठाया? रावण देखा है? दस शीश वाला रावण नहीं है ! देखो, पाँच विकार स्त्री में, पाँच विकार पुरुष में। तो हो गया रावण का राज्य। इसको कहा जाता है रावण का राज्य यानी पाँच विकार रूपी रावण का राज्य। पाँच विकार स्त्री में, पाँच विकार पुरुष में। दोनों में। जब राम राज्य है तो दोनों में विकार नहीं हैं। तो देखो, विष्णु की चार भुजाएँ हैं। दो भुजाएँ स्त्री कीं, दो भुजाएँ पुरुष की। वो हो गए पाँच विकार, वो फिर हो गया दो भुजा स्त्री की, दो

भुजा उनकी— देवता। तो ऐसे—2 उनको ये बुद्धि में बिठाए, जो न बात करे, मुख से बोले। इनको भी बिठाना पहले—2 एकदम। तो यहाँ से ऐसे होशियार हो जावे। बाबा क्या कहे, इनको कोई सिखलावे तो मैं सौगात दूँ। अगर कोई इनको सिखलाकर दे मैं चाँदी का ग्लास दूध पीने के लिए इनाम दूँगा। (किसी ने कहा— मैं सिखलाऊँगी।) तुम सिखलाओ इनको, जो ये समझे, समझ जावे और वो गद्दी पर बैठकर एकदम अच्छी तरह से समझाए। तो मैं तुमको चाँदी का ग्लास इनाम दूँगा। चलो कोई भी किसको भी समझावे, मैं उनको इनाम ज़रूर दूँगा और चाँदी की भी। तुम बच्चियाँ मैं से कोई भी बैठे जिन्होंने हाथ उठाया है। उनको हमको होशियार करके दो, जितना दिन हो। अभी तीन/चार रोज़ तो हो ना। दिन में पढ़ाने से समझ जाएँगे, दूसरे दिन बोलने लग पड़ेंगे। तो बाबा उनको इनाम ज़रूर देंगे। उसमें भी जो सहज हो, अभी ये तो सहज है, इनको तो बरस हो गया है, बहुत पुरानी है। इनका तुमने खोल दिया तो मैं गिलास के साथ और भी कुछ दे दूँगा। समझाती हो ना। डेली समझा देती हो। बाकी इनको समझा दो। ...कर सकेगी बच्ची। (किसी बहन ने पूछा— कौन है ये ?) ये कवीन है। ... अगर ये अभी जा करके थोड़ा अच्छी तरह से समझाने लग जावे तो ये बहुतों का कल्याण कर सकती है; क्योंकि बुजुर्ग है और बड़े घर की बड़ी है। (किसी ने पूछा— कितने रोज़ में तैयार करना है?) अभी अगर तुम उठाती हो, जितना रोज़ रहो। दो/तीन यहाँ रहाय सकता हूँ, नहीं तो रवाना कर दूँगा! बाबा ठीक बोलते हैं ना (कि) अगर इसने बड़े—2 को आप समान किया तो बड़े आदमी, ये तो हैं लखपति लोग, करोड़पति लोग, इनके पास तो पाई के मुआफिक पैसा रहता है। तो बड़े—2 आदमियों से कनेक्शन है ना, बड़ी—2 माताओं से कनेक्शन है, बड़े—2 मनुष्यों से, मित्र—संबंधियों से कनेक्शन है। अगर इस बारी जा करके ये टुकलू—2 करने लग पड़ी तो तुमको तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं और जो पार्टियाँ हैं वो फिर उनको उठाओ। तो एक—2 जो उठाएँगी, जो उनको कहेंगी कि हाँ, हमने अभी समझा है, हम समझाय सकती हैं, मैं उनको इनाम ज़रूर दूँगा और दूँगा ज़रूर चाँदी की। (किसी ने कहा— आपके आगे ही समझावेंगे)। तभी क्या! तैयार हैं, चलो दीदी के आगे। (किसी ने कहा— हाँ, दीदी के आगे।) मेहनत करो इनके ऊपर। इनको शौक होना चाहिए। नहीं तो ये बोलते हैं (कि) जाकर क्या करती है, यह कुछ मुख से ही नहीं बोलती है। ये तो जैसे जंगली तोता ठहरा। गले में माला ही नहीं पड़ती है। एक तोते होते हैं, उनमें कंठमाला पड़ती है और दूसरे होते हैं जिसमें कंठमाला नहीं होती है। बच्चों को बाबा तो याद पड़ता है ना। स्वर्ग का वर्सा देते हैं। ये बाबा ठहरा ना। स्वर्ग की स्थापना तो बाबा करते हैं ना। अभी था; परन्तु फिर भी तो 84 जन्म लेना पड़े ना। जो भी आवे, मनुष्य तो है ना। तो देखो, 84 जन्म ले करके अभी ये नक्क बन गया है। 84 जन्म के अंत के जन्म में नक्क बन गया। सतोप्रधान से सतोर्जोतमो ये थोड़ा—2 अक्षर और फिर भी तो बाबा आया हुआ है। वो आता ही है यानी आना ही पड़े। सतयुग और कलहयुग। कलहयुग के अंत में, सतयुग के आदि में आना ही पड़े। 5—5 हज़ार वर्ष बाद बाबा को आना ही पड़े पतित दुनिया को पावन करने। अभी तो आता ही है। देखो, विनाश सामने खड़ा है। तो कलहयुग के अंत में आया है ना। तो बाप फिर क्या कहते हैं, निशानी क्या है बाप की कि बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे जो विकर्म हैं, यह खाद पड़ी हुई है, वो गल जाएगी, निकल जाएगी और पक्के सोने बन जाएँगे और फिर हमारे पास.... आत्माएँ वहाँ तो पक्का सोना ही रहती हैं, पवित्र ही रहती हैं। उसको मुक्ति कहा जाता है। फिर ये चक्कर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलहयुग— यह कैसे फिरता है। बस वो स्वदर्शनचक्रधारी बना दो। बैठकर समझावें, जो फिर चक्रवर्ती राजा बनता है। बस, ऐसे करके इनको अच्छी तरह से बोलती रहो, बुलाती रहो। बोलने (की) हेर पड़ जाएगी ना तो बोलती रहेंगी। फिर तुम सुनाओ, उनके ऊपर आगे बोलो, फिर ये इनके आगे बोले, तुम्हारे आगे बोले। तो ये बहुत काम करेंगी और इनको सच्चा—पच्चा खुशी का पारा तब चढ़ेगा; क्योंकि... कल्याण करेगी ना तो फिर पारा बड़ा अच्छा चढ़ेगा और फिर इसके कारण बाबा को इनके बड़ों से आफरीन मिलेगी (कि) इसने कमाल की है, इनको इतना होशियार किया है जो ये हमको समझा भी सकती हैं। फिर भले कहे कि मैं इतना ही इशारे में समझाती हूँ; किन्तु है तो एक सेकेण्ड का जीवनमुक्ति। बाप को याद करना है, वर्से को याद करना है। बाकी बहुत समझाना, वो तो फिर एक/दो से हाशियार तो होती ही हैं। फिर तुम चलो सेन्टर में, वहाँ तुमको समझाएँगे और स्वदर्शनचक्रधारी ज़रूर बनाकर दिखलाएँगे। बच्चों को सीखने का हिस्स होना चाहिए। किसको भी पकड़ना चाहिए जो समझा सकती है। देखो, ये समझा सकती है, ये

समझा सकती है, ये बच्चियाँ भी समझा सकती हैं, ये बच्ची भी समझा सकती है। जो समझा सकती है उनको पकड़ो। यहाँ आए हो, घर में तो कुछ कर नहीं सकेंगी। वहाँ तुम लोगों को फुर्सत कहाँ! वहाँ का वायुमण्डल ही तुमको समझाने नहीं देगा। वायुमण्डल ही खराब। यहाँ फिर भी वायुमण्डल अच्छा है, धारणा होगी। पीछे घड़ी-2 आपे ही आकर, इनके सामने खड़ी रहकर दौड़ी करेगी कि हम ये समझावें। अपने आप से बात करेंगे।... हर एक ब्राह्मण को स्वदर्शनचक्रधारी ज़रूर बनना है। चक्रवर्ती राजा बनना है ना। अब नाम ही चक्रवर्ती पड़ा है। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा। चक्कर काहे का? सृष्टि का चक्र और क्या! ...इनाम कौन लेते हैं! ...मिलेगा, नाम भी होगा, फिर बाबा गाता रहेगा। ये टेप में भी नाम देते रहेंगे कि इसने इसको आफरीन दिया कि इसने इनको आ करके समझाया। हूबहू जैसे परमपिता परमात्मा के साथ बैठी हो। बाबा, दादा और बच्चे सन्मुख बैठे हैं। देखो, कितना ऊँचा कुटुम्ब ! यहाँ तुमको जो निश्चय और मज़ा आएगा, इतना मज़ा घर में नहीं आएगा। भले सेन्टर में जाएँगे तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ; क्योंकि सन्मुख बैठे हो। सभी बच्चे बाबा और मम्मा के सन्मुख बैठे हो। जानते हो कि बाबा और मम्मा से हमको स्वर्ग का वर्सा मिलने का है। जैसे कि यहाँ बाबा—मम्मा के साथ घर बैठे हो। बाबा भी आया हुआ है, जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं और जैसे ईश्वरीय घर में बैठे हो। पीछे भिन्न नाम—रूप से फिर तुम वहाँ दरबार में आपस में मिलेंगे। जो रजवाड़ा बनेंगे वो फिर...। ये तो समझ सकते हो ना कि वहाँ फिर दरबार होगी। फिर तुम्हारा नाता ही होगा रजवाड़ों का रजवाड़ों के साथ यानी राजाओं का राजाओं के साथ, प्रजा का प्रजा के साथ। इसलिए राजा बनना अच्छा है, रानी बनना अच्छा है बहुत और है भी नर से नारायण बनने का ज्ञान, राजयोग। प्रजायोग नहीं है, राजयोग (है) ; परन्तु राजा के पीछे प्रजा तो ज़रूर बनेगी। अच्छा! (म्युज़िक बजा) बच्चे, भक्तिमार्ग में गीत, कविताएँ, डायलाग ये—वो बहुत ही खिटपिट है। बाबा इन बातों को नहीं अच्छा...। यह पढ़ाई है ना। पढ़ाई में गीत—कविताएं की तो कोई दरकार ही नहीं होती है। इसमें तो है ही चुप। हाँ, समझाने के लिए ज़रूर समझाना पड़े। चुप कैसे रह करके वर्सा पा सकते हो! है तो चुप के लिए ना। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाता है। चुप करके बैठना होता है और वो ज्ञान भी सुनाना पड़ता है और कोई झाँझ वगैरह की कोई बात...। तो स्कूलों में कोई झाँझ नहीं बजती है, ये तो मंदिरों में बजती है। ..पढ़ाई एक घण्टा भी बहुत काफी है। फिर घर में बैठ करके उनको उगारना चाहिए। जैसे गड़ियाँ होती हैं ना, घास खाती हैं तो उगारती रहती हैं। तैसे ही ये ज्ञान ऐसा है जो अंदर में, सुबह—दिन जब भी फुर्सत मिले ये ज्ञान का चक्कर अंदर फिरता रहे, फिरता रहे, तब खुशी का अच्छा पारा चढ़ेगा; क्योंकि समझाते भी रहेंगे, चक्कर भी फिरता रहेगा। सो भी समझाना बहुत सहज है— शांतिधाम, सुखधाम, ये दुःखधाम। अभी शांतिधाम चलना है, सुखधाम में आना है। दुःखधाम खतम होने का है। अभी किसको भी समझाने में कितना सहज है। ऐसे—2 इनको भी ये समझाते रहना, टोटके भी। अभी देखेंगे, कैसे इनाम पाकर जाती हो और तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। बाबा फिर ... करने लग पड़ते हैं ना। ये घड़ी—2 याद आएगा, झट जिसका नाम निकलेगा एकदम। जो—2 कुछ भी करेंगे। अच्छा, मीठे—2 सिकीलधे बच्चों प्रति, जमुना! तुमको भी कह दिया है कि कोई न कोई का कल्याण कर देवे तो वो और को कल्याण करने लग पड़ेंगी। ये मुख खुलना ज़रूर चाहिए। मुख नहीं खुलते हैं। गूँगे का भी कुछ इशारा चलता है। मुख क्यों नहीं खुलना चाहिए! बेबियाँ हैं, उनका भी मुख खोलते हैं। बाबा—2 कहो तो बाबा—2 कहने लगती हैं, जो सिखलाओ सीखने पड़ती हैं। ये सहज बात नहीं समझा सकते? शांतिधाम, सुखधाम, ये दुःखधाम है। पावन दुनिया है, ये पतित दुनिया है। ये इतना आधाकल्प, ये इतना आधाकल्प। वो राम राज्य, यह रावण राज्य। ऐसे—2 टोटका इनके ऊपर युक्ति से समझा दो तो फिर ये बैठकर समझाएँगी। फिर दीदी पास करेंगी। दीदी का भी नाम होगा; क्योंकि ...दीदी अभी यहाँ है ना। तुम्हारा भी नाम होगा और शौक रखना चाहिए समझाने का, नहीं तो बाप का नाम नहीं निकाल सके। अच्छा! मीठे—2, सिकीलधे बच्चों प्रति मात—पिता, बापदादा का यादप्यार और गुडनाइट।